




# **BANYAN TREE SCHOOL, BHOPA L HOLIDAY HOMEWORK**

SESSION--(2020-21)



**NAME OF STUDENT:** \_\_\_\_\_

**CLASS: IV**

**TEACHERS NAME/SIGN:** \_\_\_\_\_

## SUMMER HOLIDAY HOMEWORK (2020-2021)

### CLASS-IV

#### ENGLISH

- Q1. Write daily four words from your dictionary with their meaning, part of speech and frame simple sentence of each words. Prepare word bank.
- Q2. Write the name of parts of speech with the help of flow chart with example. [In A4 sheet]
- Q3. Write 10 homophones example (son-sun).
- Q4. Do you think that the shoes helped Kitty become a better person? If yes, how?
- Q5. Write 10-10 examples of Singular nouns and Plural nouns.
- Q6. Write the 5 example of Collective Nouns.
- Q7. Write an application to your Class Teacher for two days leave.

#### हिंदी

- 1) दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्दों को अलग अलग करके लिखिए।  
सुमित्रा, लड़की, आश्चर्य, गंगा, नदी, प्यार, दिल्ली, शहर, मिठास, रामायण, पुस्तक, सुंदरता, जवानी, अच्छाई, चढ़ाई।
- 2) "अभिमानी बारहसिंघा" की कहानी लिखकर बारहसिंघा का चित्र बनाओ।
- 3) नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए।  
मौत सिर पर मंडराना, काम तमाम कर देना, चौकड़िया भरना, सूरत, अभिमान, सीरत, वजन

#### EVS

- 1) Paste the pictures of following animals, identify them and write whether they are mammals or egg laying animals:-  
Hen, cat, duck, tiger, cow, parrot, crocodile, goat, fish, frog, dog, sparrow, elephant, lion, bear.
- 2) Write some good habits that you learnt from your family.
- 3) Compare your family with your friend's family. Write the things you like in your family and the things you like in your friend's family.
- 4) Make a diagram on the life cycle of frog on chart paper

## MATHS

### Expanded Notation

Write each number in expanded notation.

$$5,918 = \underline{\hspace{10em}}$$

$$4,596 = \underline{\hspace{10em}}$$

$$1,049 = \underline{\hspace{10em}}$$

$$4,889 = \underline{\hspace{10em}}$$

$$1,936 = \underline{\hspace{10em}}$$

$$9,088 = \underline{\hspace{10em}}$$

$$8,177 = \underline{\hspace{10em}}$$

$$6,844 = \underline{\hspace{10em}}$$

$$9,262 = \underline{\hspace{10em}}$$

$$8,929 = \underline{\hspace{10em}}$$

Write Each Number in Standard Form.

$$\underline{\hspace{2em}} = (2 \times 1000) + (4 \times 100) + (5 \times 10) + (1 \times 1)$$

$$\underline{\hspace{2em}} = (6 \times 1000) + (3 \times 100) + (8 \times 10) + (4 \times 1)$$

$$\underline{\hspace{2em}} = (6 \times 1000) + (9 \times 100) + (5 \times 10) + (7 \times 1)$$

$$\underline{\hspace{2em}} = (9 \times 1000) + (7 \times 100) + (0 \times 10) + (0 \times 1)$$

$$\underline{\hspace{2em}} = (4 \times 1000) + (6 \times 100) + (6 \times 10) + (0 \times 1)$$

### Mixed Practice Word Problems #3


1. Megan had 217 markers. Robert gave her 109 more markers. How many markers does Megan have altogether?
2. A DVD book holds 126 DVDs. There are 81 DVDs already in the book. How many more DVDs can be put in the book?
3. Carla has some marbles. She bought 489 marbles. Now she has 2778 marbles all together. How many did she start with?
4. Paco had 93 cookies. He ate 15 of them. How many cookies did Paco have left?
5. Kelly has 121 Nintendo games. How many does she need to give away so that she will have 22 games left?
6. Connie had some marbles. She gave 183 to Juan. Now she has 593 marbles left. How many did she have to start with?
7. Connie has 2315 red markers and 1028 blue markers. How many markers does she have altogether?

1. $\begin{array}{r} 8289 \\ - 7146 \\ \hline \end{array}$	2. $\begin{array}{r} 35716 \\ - 20357 \\ \hline \end{array}$	3. $\begin{array}{r} 9736 \\ - 4948 \\ \hline \end{array}$
4. $\begin{array}{r} 48985 \\ - 23897 \\ \hline \end{array}$	5. $\begin{array}{r} 19375 \\ - 52310 \\ \hline \end{array}$	6. $\begin{array}{r} 342146 \\ + 431264 \\ \hline \end{array}$
7. $\begin{array}{r} 457653 \\ + 137246 \\ \hline \end{array}$	8. $\begin{array}{r} 57638 \\ + 28419 \\ \hline \end{array}$	9. $\begin{array}{r} 29834 \\ + 13975 \\ \hline \end{array}$

**3-Digit Multiplication**

1) $\begin{array}{r} 236 \\ \times 390 \\ \hline \end{array}$	2) $\begin{array}{r} 674 \\ \times 921 \\ \hline \end{array}$	3) $\begin{array}{r} 411 \\ \times 600 \\ \hline \end{array}$
4) $\begin{array}{r} 573 \\ \times 986 \\ \hline \end{array}$	5) $\begin{array}{r} 852 \\ \times 478 \\ \hline \end{array}$	6) $\begin{array}{r} 745 \\ \times 213 \\ \hline \end{array}$
7) $\begin{array}{r} 831 \\ \times 167 \\ \hline \end{array}$	8) $\begin{array}{r} 938 \\ \times 356 \\ \hline \end{array}$	9) $\begin{array}{r} 584 \\ \times 509 \\ \hline \end{array}$
10) $\begin{array}{r} 487 \\ \times 264 \\ \hline \end{array}$	11) $\begin{array}{r} 691 \\ \times 718 \\ \hline \end{array}$	12) $\begin{array}{r} 125 \\ \times 362 \\ \hline \end{array}$

13) According to the Water Information Program, an average American uses 176 gallons of water in a day. How many gallons of water are used in 275 days by an average American?



Daily Work

Learn and write tables from 2 to 15.